



**राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

*Published by Authority*

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

**भाग 6 (क)**

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/7667 .-**In exercise of powers conferrd under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Board Phalodi has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Phalodi. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Governement.**

**कार्यालय नगरपालिका, फलोदी  
प्रारूप “क”**

**वार्डों के गठन के संबंध में प्रस्ताव**

क्रमांक	वार्ड नम्बर	वार्डों का विवरण
1	2	3
1	1	श्री रत्नीघर के मठ से देवजी दादा के मकान को लेते हुए भंवरलाल चाणडा के मकान को लेकर चाणडों की हवेली को छोड़कर ओझा की गवाड़ लेकर उत्तर की तरफ जेठमल जी के मकान को लेकर चम्पा के चोतरे को छोड़कर आगे जगदीश गुचिया को छोड़कर आगे सडक—सडक चलकर छंगाणी जी की टाल को छोड़कर उत्तर की तरफ भैया जी जोशी को छोड़कर ईसरबाग को लेकर भाई गुचिया गाडेवाले को छोड़कर राजू बाबूजी माली को लेकर आगे मूलजी गुचिया को छोड़कर आगे शिवनारायण जी गुचिया के मकान को लेकर बायां—बायां ब्रजमोहन के मकान को छोड़कर प्रकाश माली के मकान को लेकर अचारजों का चौक को लेकर रावलजी माली के मकान को लेकर आगे खींयाराम सोलंकी को लेकर सराय को छोड़कर बग्नुडी की साल को छोड़कर सीधे सीधे आगे चलकर भोमीयाजी का मन्दिर लेकर पुखराज/केशूजी माली को छोड़कर आईलाल माली को लेकर नारायण/वृधाजी माली को लेकर आगे जगदीश/मांगीलाल को लेकर राधाकिशन/अलसीदास को छोड़कर आगे सीधा चलकर मालीयों का बास बन्धा स्कूल लेकर पश्चिम में सीधे चलकर दमजी सत साहेब को लेकर परमसुख माली को मालीयों के घरों को लेते हुए भाउजी माली

		झाईवर को लेकर मांगीलाल लक्ष्मणजी माली को लेकर समस्त मथराणीयों की ढाणी को लेकर ढोली शमसान घाट को लेकर मोहरा रोड विष्णु वाटिका को लेकर कमल किशोर व्यास को लेकर गुचियों की बगेची के पिछे से जोशीयों की बगेची व सभी बगेचियों को लेकर लोहारों के मकान को छोड़कर व्यासों की बगेची को लेकर जयपुरीया बगेची को लेकर ब्रह्मबाग को छोड़कर सीधा रतीघर मठ तक।
2	2	श्रीमती नसीम बानों/नूर मोहम्मद व्यापारी के मकान को लेते हुए आगे अल्लारख खां के मकान को छोड़कर मथराणीयों की ढाणी सड़क से विष्णु वाटिका को छोड़ते हुए व्यापारियों की बस्ती मस्त कॉलोनी लेकर ढोली शमसान को छोड़कर आगे मनानाथ/शोकीनाथ जोगी को लेकर गुलाब सागर तालाब व पूरी जोगी बस्ती लेते हुए सीधा दादावाड़ी शिवसर तालाब को लेते हुए दर्जियों की बगेची को छोड़ते हुए हरिजन शमसान व हरिजन व भील बस्ती को लेते हुए अकबर का ढाबा का छोड़ते हुए मौलवी आमदीन की दुकानों को लेते हुए धनगूर का धुणा को छोड़ते हुए पुनः नसीम बानों/ नूर मोहम्मद व्यापारी के मकान तक।
3	3	ब्रह्मबाग से शुरू होकर जयपुरीयों की बगेची को छोड़कर सुगन्ध वाटिका लेकर जोशीयों बगेची छोड़ते हुए सरफूदीन व्यापारी के मकान को लेकर आगे से सीधा इनायत अली को लेकर सामुदायिक भवन छोड़कर सामने हुसैन पुत्र इसे खों को छोड़कर शकूरखों पुत्र मोहम्मद बक्स को लेकर नसीम बानों पत्ति नूर मोहम्मद व्यापारी को छोड़कर धनगुरु के धूणे को लेकर करीम घोषी को लेते हुए रोशन घोषी को छोड़ते हुए कर्बला को छोड़ते हुए पॉचू लाल हरिजन को छोड़कर आगे संकड़ी गली में प्रकाश हरिजन को छोड़कर देवकिशन छीपा को लेकर आगे चंपालाल पान वाले के मकान को लेते हुए आगे किशनजी नाई को लेकर आगे सरफूदीन याकूब लौहार को लेकर बदरुदीन लोहार को छोड़कर समस्त लोहारों के मकान को लेते हुए पुनः ब्रह्मबाग तक।
4	4	अकबर के ढाबे से शुरू होकर शिवसर सड़क से दर्जियों की बगेची को लेकर शिवसर तालाब को छोड़कर चिखलिया तालाब को लेकर खाखी बैरा को लेते हुए बद्रीनारायण शर्मा को छोड़ते हुए, आई मौं मन्दिर को लेते हुए गली में सोनारों की बगेची व हरचन्द कुम्हार को छोड़ते हुए सामुदायिक भवन भागीरथ साध को लेते हुए बाबूपुरी के मकान को छोड़कर साहू खां के मकान को लेकर मोहनी विश्नोई को लेते हुए बाबू न्यारिया के दुकान को लेते हुए गुलाब दिशान्तरी के मकान को लेते हुए भूरासाम कुम्हार को छोड़ते हुए गफार न्यारिया को लेते हुए आगे बायां गली में मुड़कर चिरंजी चाण्डा व बालपूरी के मकान को छोड़ते हुए सफी चुड़ीगर बाबू घोषी के मकान को लेते हुए जवाहर छंगाणी उर्फ़ फीना के मकान को छोड़ते हुए मदन जी दिशान्तरी के मकान को लेते हुए सम्पत दिशान्तरी को छोड़ते हुए खुबजी शर्मा के मकान को लेते हुए प्रकाश शर्मा के नया मकान को लेकर शिवप्रताप सोनी को छोड़कर सामने समस्त फकीरों के चौक को लेकर गली में श्रीमालीयों की बगेची व जामा मसिजद को लेते हुए करबला को लेकर नायों की बगेची को लेते हुए पुनः अकबर के ढाबे तक।
5	5	करणाराम विश्नोई मुख्य देचू रोड से शुरू होकर पश्चिम की तरफ रामदेव मंदिर जसराज कुम्हार के मकान को लेकर उत्तर की तरफ मुड़कर अमरोजी कुम्हार के मकान को छोड़कर होलजी छंगाणी के मकान को लेकर राधेश्याम थानवी के मकान को लेकर अशोक पत्रकार के मकान को लेकर प्रेमराज एसआई के मकान को छोड़कर गजराज सुथार के मकान को छोड़ते हुए रामजी कुम्हार के बाड़े को लेकर पश्चिम में सीधे बद्रीनारायण शर्मा के मकान को लेकर सीधे रामसर तालाब खत्री नाड़ा भोमियाजी का थड़ा पशुमैला मैदान को लेते हुए पुरानी चूंगी नाका को छोड़कर भवरसिंह वकील के मकान को लेते हुए पुनः करणाराम विश्नोई तक।
6	6	बाबू पुरी के मकान से शुरू होकर वेदो की बगेची को लेते हुए कैलाश साद के मकान से मुड़कर हरचन्द कुम्हार के मकान को लेकर सीधे गजराज सुथार के मकान को लेकर दक्षिण की तरफ प्रेमचन्द भार्गव एसआई के मकान को लेकर कमल थानवी की कोटडी को लेकर अशोक पत्रकार के मकान को छोड़कर सामने वाली गली में ओमप्रकाश होलजी छंगाणी के मकान को छोड़कर तुलछाराम कुम्हार को लेकर सीधे अमरोजी कुम्हार को लेकर जसराज कुम्हार व रामदेव जी मंदिर को छोड़कर शैतान

		मिस्त्री के बाड़े को छोड़कर खेताराम कस्वा के मकान को लेकर उतर में राजपूत छात्रावास पुराना धर्मकांटा को लेकर पालिका पार्क को लेते हुए गोपी किशन नाई को छोड़कर उतर की तरफ पन्नालाल व्यास (लधुभा) की दुकानों को लेते हुए दीपक भार्गव वकील के मकान को छोड़ते हुए गुलाब जी भार्गव के मकान को लेते हुए पप्पुलाल बंशीलाल भार्गव के मकान को छोड़ते हुए गुलाब जी भार्गव के मकान को लेकर अलसीराम भार्गव के मकान को छोड़ते हुए आगे रामचन्द्र भार्गव को लेकर मोहम्मद सदीक को छोड़कर लेखराज दिशान्तरी को लेकर साहु खां को छोड़कर सीधा पुनः बाबू पुरी के मकान तक ।
7	7	भगवतीलाल छगाणी के मकान से शुरू होकर सीधा नदी-2 बांया चलकर गोवर्धनदास मंदिर को लेकर लटियालपुरा स्कूल को लेकर ब्रह्मबाग से मुड़कर पश्चिम की तरफ लोहारों के मकानों को छोड़कर बदरुदीन लोहार के मकान को लेकर दक्षिण की तरफ चंपालाल पुरोहित के मकान को छोड़कर देवकिशन छीपा को छोड़कर प्रकाश हरिजन को लेकर पांचूलाल हरिजन के मकान को लेकर धनगुरु धूणा को छोड़कर ईसेखा घोषी को लेकर सतार खां घोषी को लेकर रोशन घोषी को लेकर करीम घोषी को छोड़कर श्रीमालीयों की बगेची को छोड़कर अमृतलाल पुरोहित को छोड़कर कंवरलाल बोहरा को लेकर भंवरलाल छंगाणी के बाड़े को छोड़कर संकड़ी गली से होकर जसोल मां के थान को छोड़कर मनोज छंगाणी के मकान को लेकर जवाहर लाल छंगाणी के मकान को छोड़कर पतली गली से प्रमोद भवन को छोड़कर राजा छंगाणी को दाहिना छोड़कर पुनः भगवतीलाल छंगाणी के मकान तक ।
8	8	श्री अशोक छंगाणी (राजा) के मकान को लेकर भगवती लाल को छोड़कर प्रमोद भवन को लेकर पतली गली से जवाहरलाल छंगाणी (फीना) के मकान को लेकर मनोज छंगाणी को छोड़कर पतली गली में जसोल मां के थान को लेकर भंवरलाल छंगाणी के बाड़े को लेकर रघुनन्दन थानवी को छोड़कर कंवरलाल बोहरा को छोड़ते हुए अमृतलाल पुरोहित को लेते हुए गली में श्रीमाली बगेची व फकीरों के चौक व जामा मस्जिद को छोड़कर नाईयों की बगेची को छोड़कर पुल को लेते हुए यासीन खोखर को लेते हुए ,किल्ले को छोड़ते हुए तनसुख सावणा को लेकर चुटभाभा की हवेली को छोड़ते हुए आगे गली में जेठमल जोशी को लेते हुए व अमरचंद जोशी को छोड़ते हुए लूणकरण चाण्डक को लेते हुए लटियाल रोड़ से सीधा लटियाल मंदिर व पन्नालाल वेणावत को लेकर सीताराम बगेची को लेकर दक्षिण की तरफ नदी-नदी वासुदेव जज साहब के मकान को लेकर भीमजी बोहरा को लेकर पश्चिम की तरफ पुनः अशोक छंगाणी के मकान तक ।
9	9	किले के आगे बाबारामदेव मंदिर को लेकर सफाई विभाग को लेकर फोर्ट व्यू होटल को छोड़कर किले को षमिल कर फोर्ट स्कूल छोड़कर यासीन खोखर को छोड़कर शिवप्रताप सोनी को लेकर प्रकाश शर्मा के नये मकान को छोड़कर दक्षिण की तरफ खुबजी शर्मा को छोड़कर गुलाबचन्द मास्टर को छोड़ते हुए फीना छंगाणी के मकान को लेते हुए सफी चुड़ीघर बाबू घोषी के मकान को छोड़ते हुए माणकपुरी को लेते हुए कंवरलाल चाण्डा को छोड़ते हुए हरिगोपाल व्यास को लेते हुए ओमप्रकाश चाण्डा के मकान को छोड़कर लालजी पारख को लेते हुए सीधा मुख्य सड़क पर चढ़कर लाल निवास होटल को लेते हुए पूर्व की तरफ हमचन्द शर्मा के मकान को लेते हुए भूरजीया को छोड़ते हुए गुन्दी के उपासरे को लेते हुए झाबको का चौक होते हुए अमरचन्द शर्मा के मकान को लेते हुए बद्रीनारायण भूतडा के मकान को छोड़कर माणकजी छीपा के मकान को लेकर पूर्व की तरफ केसूजी कानूंगा को लेकर अमीचन्द कानूंगा की हवेली को छोड़कर उतर की तरफ गली में महेश्वरीयों का कटला छोड़कर आगे गुलाब गली में पोस्ट ऑफीस को लेकर आगे ब्रह्मसभा को छोड़कर पुनः रामदेव मंदिर किले तक ।
10	10	गोपीकिशन नाई के मकान से शुरू होकर जोधपुर चुंगी नाका को लेते हुए पिजरा पोल, राणीसर तालाब, महेश्वरीयों की बगेची लेते हुए पुलिये के नीचे से एस.एम.बी स्कूल लेते हुए वीरतेजा जी छात्रावास को छोड़ते हुए सीधे चलकर ओम भाटीया के मकान को लेकर आगे पश्चिम की तरफ ओसवाल न्याति नोहरा को लेते हुए दीपसिंह रावणा राजपूत को छोड़कर सामने गली में पूर्णमल लूणकरण सोनी को छोड़कर

		फरसराम सोनी को छोड़कर श्रीगणेश मंदिर को लेते हुए डॉ. हीरालाल सोनी को लेते हुए कुनाराम चौधरी को छोड़कर दाउलाल गोपाणी को लेकर रामसिंह मिस्त्री को छोड़ते हुए गफार न्यारीया को छोड़कर भूराराम कुम्हार को लेते हुए आगे लेखराज को छोड़ते हुए मो.सदीक खां को लेकर आगे अलसीराम भार्गव के मकान को लेते हुए दक्षिण में गुलाब जी भार्गव को छोड़कर संकरी गली से देवप्रकाश भार्गव को छोड़कर पन्नालाल व्यास लधुभा की दुकानों को छोड़कर सीधा सामने पुनः गोपी किशन नाई के मकान तक।
11	11	सतीश चन्द्र नीमाणी के मकान से शुरू होकर दक्षिण की तरफ पुखराज सोनी वकील को लेते हुए आगे बायी तरफ मुड़कर दीपसिंह रावणा राजपूत को लेकर सीधा ज्ञानचन्द्र भीमराज जैन व ओसवाल न्याति नोहरा को जीवणा छोड़ते हुए सरदारपुरा स्कूल के पिछे से ओम भाटीया के मकान को छोड़कर वीरतेजा जी छात्रावास को लेते हुए एस एम बी स्कूल को छोड़ते हुए मुख्य सड़क चढ़कर पूर्व की तरफ चलते हुए इण्डिया स्टील को लेते हुए सीधा सड़क-सड़क हसनु खां बिल्डिंग को लेकर मोतीमहल को छोड़कर पुराने पोस्ट ऑफिस व करीम खा घोषी को छोड़ते हुए युनिश धोबी के मकान को लेकर सीधे गोविन्द चौक श्रीकिशन पुरोहित को लेकर श्री धेवरचन्द्र सोनी को लेकर उत्तर की तरफ मुड़कर प्रकाशजी वेद (नीरज टेक्स्ट) को छोड़ते हुए आगे सम्पतलाल लूकड धर्मशाला को लेकर सांगीदास हवेली को लेते हुए श्री शिवदान मलजी वकील के मकान को लेकर देवी प्रसाद सुथार को लेकर सीधा-सीधा सड़क धेवरचन्द्र छजलाणी को लेकर पश्चिम की तरफ आगे चलकर दक्षिण की तरफ मुड़कर अनोप जी हुडिया को लेते हुए कादर की हवेली को छोड़ते हुए पत्थर रोड चलकर हेमजी गुलेच्छा के मकान को लेते हुए त्रिपोलिया की तरफ कान्तीलाल बरडिया को छोड़कर मगराज शर्मा व पुखराज वेद को लेते हुए गौड़ी पाश्वनाथ मंदिर के पीछे से पुनः सतीश चन्द्र निमाणी के मकान तक।
12	12	महेश कोठारी के मकान से शुरू होकर भुरजिया को लेकर नारायण पत्रकार को लेकर लालनिवास को छोड़कर लालजी पारख के मकान को छोड़कर बच्चू खां व ओमप्रकाश चाण्डा को लेकर हरिगोपाल व्यास के मकान को छोड़ते हुए कंवरलाल चाण्डा को लेते हुए नीचे ढाल उत्तर कर लालसिंह के मकान को लेकर दाउलाल गोपाणी के मकान को छोड़कर डॉ. हीरालाल सोनी के मकान को छोड़कर जैन कलोथ के मकान के पिछे से आगे चलकर पुखराज सोनी के मकान छोड़कर अशोक/अम्बालाल शर्मा को लेकर गौड़ी पाश्वनाथ मंदिर को लेकर मगराज शर्मा को छोड़कर कान्तीलाल बरडिया के मकान को लेकर सीधा पत्थर रोड में भंवरलाल गोतमचन्द्र को छोड़कर हेमजी गुलेच्छा के मकान को छोड़कर गली में सोनारों के मंदिर को छोड़कर अनोपजी हुडिया के मकान को छोड़कर पारस गैस वाले के मकान के पास वाली गली में मुड़कर आगे सामने भोमिया जी की ढाल चढ़कर अशोक छंगाणी को छोड़कर अमीचन्द कानूंगा की हवेली को लेते हुए केसूजी कानूंगा के मकान को छोड़कर बद्रीनारायण भूतडा के मकान को लेकर दक्षिण की तरफ ज्ञावको का चौक लेते हुए अमरचन्द शर्मा के मकान को छोड़ते हुए डॉ. षान्ति जैन को लेकर गुन्दी के उपासरे को छोड़कर पुनः महेश कोठारी के मकान तक।
13	13	चुटभाभा की हवेली से शुरू होकर सफाई विभाग किल्ले को छोड़ते हुए ब्रह्मसभा से होकर बाया मुड़कर बड़लेश्वर मंदिर को लेकर पोस्ट ऑफिस को छोड़ते हुए रामाकिशन बिडला व राधाकिशन शर्मा को लेकर राजूपान वाले के मकान को छोड़ते हुए उत्तर की तरफ मजीद रगेंरेज की दुकान को लेकर प्रेमराज राठी के मकान को लेकर लक्ष्मीनारायण जी मंदिर लेकर हरदेवजी गुचिया की दुकान को लेकर सोनारो के मकान को छोड़कर जालजी-मालजी की हवेली लेकर गनेशजी की चौकी छोड़कर भैयाजी थानवी के मकान को छोड़कर सुरेश व्यास बैक वाले के मकान को लेकर जयकिशन थानवी राधेश्याम कल्ला (भासा) को लेकर सत्यनारायण व्यास नानू के मकान को छोड़कर जगन्नाथ व्यास को लेकर भंवरलाल चाण्डा के मकान को छोड़ते हुए मोडजी जोशी के मकान को लेकर चन्द्रशेखर रंगा के मकान को लेकर नर्सिंग चौक अमरचन्द जोशी मास्टर के मकान को लेकर भंवरजी जोशी के मकान को लेकर जेठमल जोशी के मकान को छोड़कर पुनः चुटभाभा की हवेली तक।

14	14	गोविन्दराम कल्ला सब्जी वाले के मकान से शुरू होकर सीधा मदन पुष्करण के मकान को छोड़कर प्रकाष पुरोहित के मकान को लेते हुए रंगो की पोल को लेते हुए केदार जी व्यास के मकान को छोड़ते हुए कैलाश गज्जा के मकान को लेकर सत्यनारायण मन्दिर लेकर ब्रजमोहन गुचिया के मकान को छोड़कर मोतीलाल बोहरा के मकान को लेते हुए कबीर का कटला लेते हुए उत्तर में गली में मुड़कर भारती भवन व श्रीगोपाल व्यास मास्टर को लेते हुए मोहनलाल जी टर्ल के पुराने मकान को लेते हुए सीधा डावा-डावा हरनारायण व्यास के मकान को छोड़कर मूणलाल जी रामचन्द्राणी के मकान के सामने अखेराज जी गुचिया को लेकर चोरुलाल गुचिया को लेकर मुलजी गुचिया को लेकर शिवनारायण जी गुचिया को छोड़कर भाई गुचिया गाडेवाले को लेकर भैयाजी जोशी को लेकर ईसरबाग को छोड़कर दक्षिण में चलकर सीधा-सीधा छंगाणी जी की टाल को लेकर सीधा चम्पा के चोतरे को लेकर ओझों के गवाड़ में बंपीलाल जी व्यास के मकान के लेते हुए बाबूजी जयपुरिया के मकान को लेकर डावा-डावा चाण्डों की हवेली को लेते हुए सत्यनारायण व्यास नगरपालिका कर्मचारी के मकान को लेते हुए पुनः गोविन्दराम कला सब्जी वाले के मकान तक।
15	15	श्री हरनारायण व्यास के मकान को लेकर देवकिषन जी व्यास के मकान को छोड़कर सीधा डावा-डावा भुकजी बोहरा मास्टर के मकान को लेकर एम.मोहनलाल टर्ल के नये मकान को लेकर आगे दक्षिण की तरफ मुड़कर श्रीगोपाल व्यास मास्टर के मकान को जीवणा छोड़ते हुए व भारती भवन को जीवणा छोड़ते हुए अनिल गज्जा व नर्सिंग व्यास के मकान को लेते हुए राजा मास्टर के मकान को छोड़कर आयुर्वेदिक औषधालय को लेते हुए लालूजी व्यास के मकान को छोड़ते हुए डावा-डावा चल बच्चूजी के मकान को लेते हुए मधूजी की बेरी को लेते हुए दीनदयाल थानवी मास्टर के मकान को लेते हुए गायत्री भवन को छोड़ते हुए माणक जी व्यास के मकान को लेते हुए भैरुघर की सराय को जीवणा छोड़ते हुए पुखराज माली के मकान को लेते हुए बाबूजी हलवाई के मकान को लेते हुए धनष्याम थानवी के मकान को लेते हुए आचार्यों के चौक को छोड़ते हुए मालियों का न्याति नोहरा को लेते हुए डावा चलकर मोहन सरदारा के मकान को लेते हुए पुनः हरनारायण व्यास के मकान तक।
16	16	प्रेम सोनी की दुकान से शुरू होकर पूर्व की तरफ डावा-डावा चलकर सीधा रा.उ.प्रा. वि उम्मेदपुरा स्कूल लेते हुए आगे द्वारकाधीश मंदिर व पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर जयकिशन जी ईईएन को छोड़कर मगनलाल टर्ल के मकान को लेते हुए आगे चलकर वल्लभ भवन व जेठमल हलवाई के कारखाने को लेकर लालूजी व्यास के मकान से राजा मास्टर के मकान को लेते हुए सत्यनारायण मंदिर छोड़कर ब्रजमोहन गुचिया के मकान को लेते हुए कैलाश गज्जा के मकान को छोड़कर केदारजी व्यास के मकान को लेते हुए रंगो की गली से प्यारेलाल थानवी के मकान को लेते हुए सामने लाईब्रेरी को छोड़ते हुए भैयाजी थानवी के मकान को लेते हुए गवरीदत व्यास के पुराने मकान को छोड़ते हुए माघोराय जी की गली व गणेशजी चौकी को लेते हुए जालजी-मालजी हवेली को छोड़ते हुए छंगाणियों की गली को लेते हुए सीधा डावा-डावा बाबे का कोठा लेकर ब्रदीभा बोहरा के मकान को लेते हुए पुनः प्रेम सोनी की दुकान तक।
17	17	श्री मूलजी भट्टड की दुकान से शुरू होकर महेश्वरी कटला को लेते हुए जजू थानवी के मकान को लेकर सीधा गली में अमीचंद कानूगा की हवेली को छोड़कर अशोक छंगाणी(छोटसा) के मकान को लेकर भोमियाजी की ढाल उत्तरकर सामने पारस गैस वाले के मकान को छोड़ते हुए आगे संकरी गली में घेवरजी छजलाणी के मकान को छोड़ते हुए जीवणा चलकर दगडूशाह के मकान को लेते हुए शिवदानमल व्यास के मकान को छोड़ते हुए सांगीदास मंदिर के आगे से सीधा गौतमचन्द जैन की दुकान को छोड़ते हुए न्यारियों के मकानों को छोड़ते हुए आगे जवाहरजी सुथार के मकान को लेते हुए जेठमल जी छीपा के मकान को लेकर कबुतरों का चौक को जीवणा छोड़ते हुए गोपालजी घडवाई के मकान को लेते हुए जानकीलाल शर्मा के मकान को लेते हुए आगे सूरदास हवेली को लेते हुए आगे जीवणा चलकर पोस्ट ऑफिस छोड़ते हुए महश स्कूल छोड़ते हुए हरिभाई थानवी के मकान को लेते हुए पंजाब नेशनल बैंक लेते हुए द्वारकाधीश मंदिर को लेते हुए लक्ष्मीनारायण बूब की दुकान को छोड़ते हुए

		बापू धोबी को लेते हुए चढ़ाई चढ़कर राजूपान की दुकान लेकर पुनः मूलजी भट्टड की दुकान तक।
18	18	मोतीमहल से शुरू होकर सीधा-सीधा सड़क बॉम्बे लॉज व हावडा स्वीट्स को लेकर राजकीय चिकित्सालय को लेकर शर्मा लॉज को लेकर गली में यूको० बैंक छोड़कर हीराराम विश्नोई को लेते हुए एस.बी.आई बैंक को छोड़कर मानजी बोहरा को लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पिछे से होते हुए विश्नोई बोर्डिंग व प्रिसिपल क्वाटर को जीवणा छोड़ते हुए जयनारायण मूर्ती को लेकर महावीर भवन को लेते हुए लूणजी भाटी के मकान को छोड़ते हुए इण्डो साल्ट के मकान को लेकर कमला भवन को छोड़ते हुए वाटर वर्क्स की टंकी को लेते हुए गौशाला चौक मे से दक्षिण की तरफ अमोलख श्रीमाली अध्यापक को छोड़ते हुए आगे मुन्दडा मार्केट होते हुए घेरजी सुथार अध्यापक की दुकान छोड़ते हुए सुरेजी व्यास नूनसा के मकान को लेकर बुलीदानजी मास्टर के मकान को लेते हुएं पश्चिम तरफ पथर रोड होते हुए निरज टेडर्स को छोड़ते हुए ललीत जैन को लेकर तिलोक जी सोनी को छोड़कर दक्षिण की तरफ गोविन्द चौक होकर सोनारो के कट्टे को लेकर मुलजी सोनी को छोड़कर युनुश धोबी को छोड़कर करीम खां घोषी पोस्ट ऑफिस को लेकर पुनः मोतीमहल तक।
19	19	नीरज टेझर्स से शुरू होकर पूर्व की तरफ पथर रोड चलकर आर्शीवाद फैन्सी स्टोर को लेकर बुलीदान सुथार को छोड़कर सुरेश व्यास (नूनसा) को छोड़कर आगे भट्टड मार्केट छोड़कर विश्वकर्मा मन्दिर लेते हुए अमोलख श्रीमाली को लेकर गौशाला को जीवणा छोड़कर लटियाल सिनेमा के दक्षिण की तरफ गली में मुड़कर दर्जीयों की गली में चलकर बाया मुड़कर रामसा चौहान को लेकर घनश्याम सुथार मिस्त्री को लेकर कबुतरों को चौक लेकर जवाहर जी सुथार को छोड़कर न्यारियों के मकान लेकर हिंगलाज फर्नीचर को लेकर घ्याम सुन्दर जी पुरोहित (सीओ भा) को छोड़कर सांगीदास हवेली व सम्पतलाल लूकंड घरमशाला को छोड़कर अशोक बुरड के मकान को लेकर पुनः नीरज टेझर्स तक।
20	20	श्री गिरधारी मुन्ही के मकान से डावा-डावा चलकर थानवी मार्केट को लेते हुए महालक्ष्मी ट्रेडर्स छोड़कर जानकीलाल शर्मा के मकान को छोड़कर आगे मोती दर्जी के मकान व दूकान को लेते हुए अन्दर सड़क पर चलकर जेठमल छीपा के मकान को जीवणा छोड़ते हुए कबुतरों के चौक में श्री देवनारायण थानवी जज साहब के मकान को छोड़ते हुए आगे चन्द्रप्रकाश श्रीमाली के मकान को छोड़ते हुए आगे छगनलाल जी बोहरा के मकान के पिछवाडे से सीधा किशनलाल नाई के मकान को छोड़कर आगे सत्तार रंगरेचा के मकान को लेते हुए सीधा लाभूजी थानवी के बाड़े को लेते हुए आगे सत्संग भवन को लेते हुए सुभान खां तेली की घाणी को लेते हुए सीधा महेष स्कूल को लेते हुए लालजी थानवी के मकान को छोड़ते हुए पोस्ट ऑफिस को लेते हुए थानवी स्टूडियों को लेते हुए रत्नलाल जी मास्टर के मकान को लेते हुए आगे सूरदासजी हवेली को जीवणा छोड़ते हुए गिरधारी मुन्ही के मकान तक।
21	21	लटियाल टाकीज से शुरू होकर गौशाला को छोड़ते हुए बाबूजी व्यास की हवेली को लेते हुए उत्तर की तरफ चलकर वेद भवन को जीवणा छोड़कर आगे पास की गली में रहीम बक्स तेली व सतार तेली को छोड़ते हुए आगे पूर्व की ओर छीपो का मंदिर एवं अगरचन्द जी भाटी का मकान को लेकर राणाराम मेघवाल को छोड़कर आगे आदर्श विद्या मंदिर छोड़कर महालक्ष्मी कट्टा छोड़कर तेलीयों का मदरसा लेकर लीलाधर नागल का मकान लेकर पास की सकड़ी गली में दिनेश बोहरा के मकान छोड़कर आर.सी आकूल को लेकर बुधलाल छीपा को लेकर बाया-बाया चलकर भैया व्यास के मकान को जीवणा छोड़कर घुघरजी जोशी के मकान को लेकर आगे मजीद रंगरेज को छोड़कर किशनलाल नाई को लेकर फूसाराम जीनगर को लेकर छगनजी बोहरा को छोड़कर चन्द्रप्रकाश श्रीमाली को लेकर ऐका के बास में बायी तरफ मुड़कर दर्जीयों की गली में पूर्व की तरफ चलकर पुनः लटियाल टाकीज तक।
22	22	रघुनाथ जी मंदिर से शुरू होकर डावा-डावा चलकर कमल सोनी पत्रकार को छोड़ते हुए संकड़ी गली में मुड़कर सीधा पूर्व में आगे सुभान खां तेली की घाणी को जीवणा छोड़कर सत्संग भवन को छोड़कर दीनदयाल तुलसीदास थानवी के मकान को लेकर

		लाभूजी के बाड़े को छोड़कर भैया व्यास के मकान को लेकर डावा-डावा चलकर आगे सकड़ी गली में आर.सी आकूल को छोड़कर नरेन्द्र बोहरा को लेकर जे.के हाउस को लेकर गणेश चाण्डा के कटला को लेकर आदर्श विधा मंदिर स्कूल को लेकर सूरज करण बोहरा के मकान को छोड़कर पंकरलाल पुरोहित को लेकर आगे कमल किशोर पुरोहित को लेकर मेघराज व्यास को छोड़कर विधवा आश्रम के पिछे से लीला देवी जोशी को लेकर हनुमानजी टर्क के बाड़ा को छोड़कर मगनजी टर्क व धनजी टर्क को लेते हुए रामचन्द्र जी पुरोहित को लेते हुए आगे रामचन्द्र व्यास को लेकर जयदयालजी बोहरा को लेकर सुखदेव जी बोहरा के बाड़े को लेकर हनुमान जी का मंदिर छोड़कर भीकमपुरीयों के मकान छोड़कर नन्दकिशोर चौधरी को लेकर नन्दभवन को लेकर व आगे गिरधारीलाल थानवी को लेकर उतर की तरफ अशोक थानवी को लेकर आगे बाया मुड़कर झुमरलाल सुथार को छोड़कर मांगीलाल जसराज चाण्डा को लेकर दक्षिण की तरफ मुड़कर गायत्री पैलेस लेकर मधुजी बेरी को छोड़कर पण्डित जी के मकान को लेकर परमसुख जी जोशी के मकान को लेकर जेठमल मिठाई वाले के कारखाना को छोड़कर दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क सीधा चलकर पुनः रघुनाथजी मन्दिर तक।
23	23	मलार रोड पर वासुदेवजी बोहरा के दुकान से शुरू होकर उत्तर की तरफ मुख्य मलार रोड लेते हुए आगे चलकर पश्चिम में मुड़कर केशर छीपा को लेकर प्रभुकृपा मार्केट को छोड़कर आगे गली में मेघराज पुरोहित को लेकर ललीत चाण्डा को छोड़कर राधेश्याम माली को छोड़कर जसराज जी को छोड़कर भंवरलाल बोहरा को छोड़कर उत्तर दिशा में घुमकर जसराज जी को लेकर छंगाणी जी को छोड़कर गली में सुनील गज्जा को छोड़कर बंसतीलालजी व्यास को लेकर सुरेश थानवी को छोड़कर सम्पतलाल पुरोहित को छोड़कर पुखराज साध को लेकर जगदीश साध को लेकर दाउजी बोहरा को छोड़कर पश्चिम में घुमकर भरत कुमार चौधरी को लेकर धनजी टर्क का बाड़ा को छोड़कर विधवा आश्रम को छोड़ते हुए दक्षिण में जेठमलजी थानवी को लेकर मेघराज जी व्यास को लेकर श्याम जी पुरोहित को छोड़कर आगे सुरजकरण बोहरा को लेकर इन्द्रा भेराराम को लेकर पुरानी आदर्श विधा मंदिर को छोड़कर गणपत श्रीमाली को छोड़कर अगरचन्दजी भाटी को छोड़कर अनवर तेली को लेकर आगे तेलीयों का मदरसा को लेकर रामचन्द्र गर्ग को छोड़कर आगे द्वारकेश मार्बल का गोदाम छोड़कर पूर्व की ओर चलकर पुनः वासुदेव जी बोहरा की दुकान तक।
24	24	कमला भवन से शुरू होकर उत्तर दिशा में शोयब रज्जा ठेकेदार को छोड़कर मदरसा लेकर पुलीया से मेगवाल समाज न्याति नोहरा छोड़कर सीधा मलार रोड चौराहा में पश्चिम घुमकर रतीराम मेगवाल को लेकर वासुदेव जी की दूकान को छोड़कर शौचालय छोड़कर द्वारकेश मार्बल के गोदाम को लेकर नखताराम गर्ग को छोड़कर बगताराम रामचन्द्र गर्ग को लेकर तेली समाज न्याति नोहरा को छोड़कर आगे राधेश्याम मन्दिर की दुकानों को छोड़कर तेलीयों के मदरसे को छोड़कर महालक्ष्मी कटला छोड़कर रहीम बक्स तेली को लेकर आगे सत्तार खां तेली को लेकर सीधा वेद भवन लेकर शिव वाटिका को छोड़कर आगे बाबुजी व्यास की हवेली को छोड़कर गौशाला को लेकर लटियाल सिनेमा को छोड़कर रामचन्द्र डोयल को छोड़कर आगे वाटरवर्क्स को छोड़कर दाउजी व्यास व गज्जा सिमेन्ट वालों को लेकर इण्डो साल्ट को छोड़कर पुनः कमला भवन तक।
25	25	सुभाष सोनी को लेकर मेघराज सोनी को छोड़कर सुशील थानवी को लेकर आगे विश्वकर्मा छात्रावास को छोड़कर चम्पालाल सोनी को लेकर भंवरलाल सोनी को लेकर हरदेव जी थानवी को छोड़कर सीधे आगे पन्नालाल वक्श को लेकर उत्तर की ओर राणाराम व भंवरलाल मेघवाल को लेकर हस्तु देवी मेघवाल को लेकर पुलिए पर सन्तोष हरिजन को लेकर सिकन्दर इलमदीन को छोड़कर नदी नदी चलकर उदाराम मेघवाल व सौरभ छंगाणी को छोड़कर गौशाला स्केल के पिछे से नगरपालिका सार्वजनिक शौचालय छोड़कर पश्चिम की ओर नैनूराम मेघवाल को लेकर अब्दुल सत्तार तेली को छोड़कर दक्षिण की ओर तुलछाराम मेघवाल को लेकर मलार रोड शोएब रज्जा ठेकेदार को लेकर मस्जिद व कमला भवन को छोड़कर खोखर मार्केट

		को लेकर इण्डो सॉल्ट को छोड़कर लूणजी भाटी को लेकर महावीर भवन को छोड़कर आगे जयनारायण व्यास मूर्ति छोड़कर पूर्व में घुमकर सीनियर स्कूल को छोड़कर लूणजी चाण्डा के बाडे को लेकर आगे प्रिसीपल क्वाटर लेकर विश्नोई बोर्डिंग छोड़कर प्रकाश सोनी को लेकर सीधा पुनः सुभाष सोनी की दुकान तक।
26	26	रेलवे स्टेशन मुख्य द्वार से पश्चिम की तरफ चलकर बाम्बे लॉज, मोतीमहल, चेतन्य पेलेस, इण्डिया स्टील व एस.एम.बी स्कूल को छोड़कर रेलवे पुलिया से होकर पूर्व की तरफ मदरसा रेलवे स्टेशन समस्त क्वाटर, मदरसा, नेताराम की चक्की, मोहन छंगाणी नगर सियाराम आश्रम को लेते हुए इण्डस्ट्रीयल एरिया को पूरा लेकर मुख्य जोधपुर सड़क से पुनः डावा-डावा महेन्द्र का ढाबा कृषि मण्डी को लेते हुए इ.ओ. क्वाटर, बापू नगर साउथ ब्लॉक, बापू नगर को छोड़ते हुए डेयरी को लेते हुए टेलीफोन कार्यालय को छोड़ते हुए रेलवे पुलिया से होकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय को लेते हुए पुलिया थाना होते हुए बिजली घर से होते हुए भाटी रेस्टोरेंट को लेते हुए नगरपालिका व टाउन हॉल को लेते हुए जेठमल सुथार के मकान को लेते हुए पन्नालाल व्यास लधुभा के मकान को छोड़ते हुए डावा-डावा फोजमल सोनी के मकान को लेते हुए विश्नोई बोर्डिंग को लेते हुए हाई स्कूल के पिछे के मैदान को छोड़ते हुऐ पीलवा हाउस को लेते हुए मनोहर शर्मा घासलेट वाले की दुकान को लेते हुए मानजी बोहरा के मकान को छोड़ते हुए स्टेट बैंक के दक्षिण की तरफ हीराराम विश्नोई को छोड़कर यूको बैंक लेकर सीधा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार तक।
27	27	गाडोदिया भवन से शुरू होकर रोडवेज डिपो को लेकर पुलिया थाना को छोड़कर पंचायत समिति को लेकर पी.डब्ल्यू.डी.डाक बंगला के सामने वाली गली में मुड़कर गणपत सिंह राजपुरोहित को छोड़कर बजरंग दर्जी को छोड़कर आगे राउ महाराज को लेकर उत्तर की तरफ अम्बा भवन को छोड़कर ओमजी बोहरा के मकान को लेकर को लेकर मुख्य गौरव पथ सड़क पर बायां चलकर लोहारों के मकानों को लेकर सामने लधुभा को लेकर शिवजी सुथार को छोड़कर उत्तर में गली क्रोस कर छतरसिंह को छोड़कर सीधा-सीधा समदा कबाडी को छोड़कर संतोष ज्वेलर्स की दुकान को लेकर पारसमल सोनी को लेकर आगे नारायण सोनी को छोड़कर जुगलसोनी को छोड़कर नदी-नदी चलकर हरदेव थानवी के नये मकान को लेकर विश्वकर्मा छात्रावास को लेकर सुशील थानवी को छोड़कर चेनसुख को लेकर सुभाष सोनी की दुकान छोड़कर पूर्व में मेंघराज सोनी को लेकर आगे कन्हेयालाल सोनी को लेकर पुलिया चड़कर पूनाराम हरिजन को छोड़कर जेठमल सुथार को छोड़कर महादेव मंदिर लेकर गोरखनजी की दुकानों को लेकर नगरपालिका को छोड़कर पुनः गाडोदिया भवन तक।
28	28	समदे खां कबाडी से शुरू होकर प्रेमराज सोनी को लेकर आगे ताज मेहम्मद को लेकर सिकन्दर धोणी वकील को छोड़कर आगे गफुर / अमीरदीन सिंधी को लेकर न्यू कोहीनूर टेन्ट को लेकर सुभान खां तेली को छोड़कर आगे पश्चिम में गली में ताज मोहम्मद तेली को लेकर आगे गुलाब नबी को छोड़कर आगे सिकन्दर को छोड़कर आगे मेहबुब खां को लेकर अब्दुल करीम फकीर को लेकर हनीफ खां को लेकर मास्टर इलाईबक्स को छोड़कर सामने मोहम्मद सदीक को लेकर आगे अहमद तेली को लेकर दक्षिण गली में गली में मुड़कर मास्टर नूर मोहम्मद को छोड़कर जमालदीन वकील को लेकर आगे हाजी ईस्माइल को लेकर आगे समस्तदीन वकील के मकान को लेकर सौरभ छंगाणी के मकान को लेकर गौशाला स्कूल को छोड़कर नदी-नदी चलकर सिकन्दर ईलमदीन को लेकर संतोष हरीजन को छोड़कर विश्नोई के मकान को लेकर हरदेव थानवी को छोड़कर पूर्व की ओर गली में जुगल सोनी को लेकर नारायण सोनी ज्वेलर्स की दुकान लेकर पूर्व की ओर सन्तोष ज्वेलर्स को छोड़कर पुनः समदेखां कबाडी तक।
29	29	शिवजी सुथार से शुरू होकर आगे महादेव मंदिर छोड़कर सीधा पूर्व में समाज कल्याण दुकानों को लेकर आगे उत्तर की तरफ मुड़कर लटियाल आयरन दुकान छोड़कर राधेश्याम चाण्डा वकील के मकान को लेकर आगे जेटूसिंह राजपुरोहित को लेकर मुरलीधर थानवी को छोड़कर आगे अम्बा भवन छोड़कर कार्नर पर सिकन्दर हाजी को लेकर अयूब पुलिया वाले को छोड़कर पश्चिम में अब्दुल मजीद को छोड़कर मुरीद खां को लेकर रायधन खां को लेकर आगे गली में चलकर नसरदीन / कादरबक्स को

		छोड़कर पश्चिम में मुख्य सड़क चलकर आगे कासम हाजी को छोड़कर देशबन्धु स्कूल को लेकर अलारख की दुकानों को लेकर न्यू कोहिनूर टेन्ट को छोड़कर दक्षिण में अत्ता मोहम्मद को लेकर गफुर हाजी को छोड़कर आगे ताज मो० को छोड़कर सिकन्दर वकील को लेकर समदा कबाडी को छोड़कर आगे बबलू व्यास को लेकर कार्नर पर छतरसिंह को लेकर लधुभा को छोड़कर पुनः शिवजी सुथार के मकान तक।
30	30	लटियाल आयरन से शुरू होकर मधु मेडिकल व यश बैंक लेकर ऐरानाडा के पास गली में सत्यनारायण सोनी को छोड़कर गुसाई मन्दिर लेकर लालदास साध की दुकाने छोड़कर गली में भंवरसिंह राजपूत व मांगीलाल देवडा को लेकर चन्द्रप्रकाश जीनगर को छोड़कर जीनगर न्याति नोहरा लेकर पार्क को छोड़कर वासुदेव को लेकर स्वरूपचन्द्र मास्टर को लेकर ओमप्रकाश देवडा रीडर को छोड़कर नवदुर्गा मेडिकल को लेकर ओमप्रकाश देवडा को छोड़कर द्वारकाराम मेगवाल को छोड़कर ओगड़जी मिस्त्री को लेकर सुलेमान मिस्त्री को छोड़कर आगे अयूब मेहर को छोड़कर सिकन्दर हाजी को छोड़कर हनीफजी कम्पाउडर को लेकर स्काई हील बिल्डिंग को छोड़कर होण्डा एजेन्सी लेकर राधेश्याम जी चाण्डा वकील को छोड़कर पुनः लटियाल आयरन तक।
31	31	पी.डब्लू डी डाक बंगले के सामने स्थित पी.डब्लू डी क्वाटर से लेकर पूर्व की तरफ मुख्य सड़क-सड़क पी डब्लू डी कार्यालय को छोड़कर जनता ऑटो मोबाइल को लेकर नलकूप नं १ को लेकर समाज कल्याण विभाग को छोड़कर अम्बेडकर उघान को लेकर मारवाड रेस्टोरेट लेकर पुलिया छोड़कर एन. के सिनेमा को लेकर पालीवाल पेट्रोल पम्प को लेकर आदर्श नगर पूरे को लेकर सूर्या होटल को लेकर पश्चिम की तरफ मुड़कर पुखसिंह ठाकर के मकान को छोड़कर गोल्डन पैलेस को छोड़कर जी.ओं टावर को लेकर ऐरानाडा को छोड़कर सामुदायिक शौचालय लेकर भवर महाराज को छोड़कर हाजी मार्केट को लेकर गैस एजेन्सी को लेकर नेमीचन्द सुथार के मकान को लेकर ओमजी बोहरा के मकान को दाहिना छोड़ते हुए अम्बा भवन को लेकर आगे गली में पूर्व की तरफ मुड़कर बजरंग दर्जा को लेकर दक्षिण की तरफ मुड़कर पूरी गवारिया बस्ती व खेतेश्वर कॉलोनी को घमिल लेते हुए पुनः पी.डब्ल्यू डी क्वाटर तक।
32	32	नागोर रोड चौराहा पालीवाल किराणा स्टोर से पास में पुलिया में से होकर सीधा दक्षिण की तरफ आर.सी.पी कॉलोनी को घमिल कर एन के सिनेमा छोड़कर मारवाड होटल को छोड़कर वन विभाग को लेकर समाज कल्याण छात्रावास को लेकर अम्बेडकर पुरानी मूर्ती को छोड़कर रेलवे पुलिया से होकर टेलिफोन एक्सचेंज को लेकर दुग्ध डेयरी को छोड़कर बापूनगर व बापू नगर सातथ ब्लॉक को घमिल लेकर कृषि मण्डी को छोड़कर इ.ओ क्वाटर व एस.एन थानवी उघान को लेकर एडीएम ऑफिस डीवाई एस.पी कार्यालय आर.टी.डी.सी के पिछे लंगा भवन के पिछे से आर.सी.पी के गोदामों को लेकर पूरी आर.सी.पी कॉलोनी घमिल कर महादेव मन्दिर को लेकर पुनः नागोर रोड चलकर सामने नन्दपुरी कॉलोनी यज्ञ नगर को लेकर विश्नोई छात्रावास लेकर फलोदी ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पम्प को लेकर एन.एच ११ चढ़कर पुनः पालीवाल किराणा स्टोर तक।
33	33	सत्यनारायण सोनी को लेकर गोल्डन पैलेस को लेकर आदर्श नगर को छोड़कर नागोर रोड चौराहे पर पुखजी ठाकर की दुकाने एवं मधुरम होटल को लेकर आगे कृष्ण सर्विस से सीधा चलकर जमेश्वर मन्दिर अंदर गली में भुराराम कुम्हार को छोड़कर कल्याणी स्कूल को छोड़कर दक्षिण में नायों के मकानों को लेकर अशोक सिंह पार्षद को छोड़कर पुखसिंह/पुनमसिंह को लेकर आगे टीकू कुम्हार को छोड़कर पप्पाराम अखेराज नाई व कंवरलाल को लेकर पश्चिम की तरफ महेन्द्र कुमावत को छोड़कर दक्षिण में मुड़कर चन्दुलाल नाई को छोड़कर जसराज भाटी को लेकर भंवरलाल डोयल को लेकर लालजी सुथार को छोड़कर आगे उदोजी के मकान को व मदनजी सोनी के मकान को लेकर मोहम्मद सरीफ को छोड़कर मदन जी खत्री व सूर्यप्रकाश को लेकर रणजीत नाथ को छोड़कर पश्चिम की तरफ सीधा सामुदायिक भवन डीपी को छोड़कर गोरधन जयपाल की दुकानों को लेकर भगाराम मेगवाल को लेकर डॉ मेहरा का हॉस्पीटल व गुसाई मन्दिर छोड़कर लालदास साध की दुकानें लेकर ऐरानाडा छोड़कर पुनः सत्यनारायण सोनी तक।

		हमीराराम कुम्हार के मकान को लेकर सीधा पूर्व में जानकीलाल श्रीमाली को छोड़कर पुखराज चाण्डा को छोड़कर गोरथन जी विश्नोई को छोड़कर भोलाराम विश्नोई को लेकर खेताराम मेगवाल को छोड़कर आगे दक्षिण में मुड़कर पुखराज भाट का मकान व मलूराम मास्टर को लेकर सामुदायिक भवन व डीपी को छोड़कर पूर्व में घुमकर सुर्यप्रकाश/गोरथनसिंह को छोड़कर मोहम्मद सरीफ को लेकर मदन जी सोनी को छोड़कर गली में उतर में घुमकर लालजी सुथार व चन्दुलाल नाई को लेकर आगे गली में पूर्व में मुड़कर कंवरलाल को छोड़कर टीकू कुम्हार को लेकर आगे अशोक सिंह पार्षद को लेकर पुखसिंह /पुनमसिंह को छोड़कर कल्याणी स्कूल को लेकर सीधा जम्बेश्वर मन्दिर के पास गली में भूराराम कुम्हार को लेकर पार्वती विश्नोई को लेकर वन विभाग छोड़कर बाबारामदेव नगर को लेकर पिछे भिखे खां को छोड़कर महीराम विश्नोई को लेकर पांचाराम विश्नोई को छोड़कर दलपत्त सिंह / फूलसिंह को लेकर भाउ तेली को छोड़कर नेनूजी सोनी के पास की गली से पुनः हमीराराम कुम्हार के मकान तक ।
34	34	ओमप्रकाश देवडा को लेकर पूर्व की ओर चलकर जेठमल पटवारी को छोड़कर पार्क को लेकर वासुदेव जीनगर को छोड़कर जीनगर न्याति नोहरा को छोड़कर भंवरसिंह राजपूत को छोड़कर गुसाई मन्दिर को छोड़कर आगे डॉ मेहरा का हॉस्पीटल को लेकर भीयाराम मेगवाल को छोड़कर आगे चनणाराम मेगवाल को लेकर सामने डी पी को लेकर मलूराम मास्टर को छोड़कर डॉ बिरबल को लेकर आगे गली में इनायत कबाडी को जीवणा छोड़कर भोलाराम विश्नोई को छोड़कर खेताराम मेघवाल गोरथन विश्नोई को लेकर पुखराज चाण्डा को लेकर आगे जानकीलाल श्रीमाली को लेकर हमीर जी कुम्हार को छोड़कर पास की गली में नेनू जी सोनी को छोड़कर आगे मोमराज विश्नोई को लेकर भाउ तेली को छोड़कर अलारख तेली को छोड़कर जमालदीन को छोड़कर आगे षकुर खां तेली को लेकर आगे हाजी नसरदीन को लेकर हमीद खेतानी को छोड़कर सामने दक्षिण दिशा में तेली का भटठा छोड़कर गली में सालेह मोहम्मद को लेकर पूर्व में अयूब मेहर को लेते हुए आगे सुलेमान को लेकर ओगड़जी मिस्त्री को छोड़कर आगे द्वारकाराम मेगवाल को लेकर नव दुर्गा मेडिकल को छोड़कर पुनः ओमप्रकाश देवडा तक ।
35	35	भाउ तेली से शुरू होकर नेनूराम सोनी को छोड़कर आगे उतर में महादेव फर्नीचर को छोड़कर सीधा—सीधा चलकर दलपत्सिंह/फूलसिंह को छोड़कर पांचाराम वचनाराम विश्नोई को लेकर सीधा गंगासिंह राजपूत को छोटू खां को लेकर बाबा रामदेव नगर सड़क चलकर पश्चिम से उतर की तरफ अजीज खां के भठे से कब्रिस्तान मेघवाल समाज घशान को पिछे से लेकर वन क्षेत्र छोड़कर आई.एच.एस.डी.पी सामुदायिक भवन के पिछे से मजीद खा इदरिस को लेकर यात खा को छोड़कर सोहन लोहार को लेकर आगे रतने खां को लेकर जाकिर हुसैन को छोड़कर अलीशेर खां को लेकर सिकन्दर तेली को लेकर मोहम्मद षोकत अली को छोड़कर मुख्य सड़क में दक्षिण में चलकर न्यू कोहिनूर टेन्ट को छोड़कर सुभान खां को लेकर अलारख खां की दुकानों को छोड़कर सीधा पूर्व में हमीद खेताणी को लेकर षकुर खां तेली को छोड़कर जमालदीन को लेकर पुनः भाउ तेली तक ।
36	36	मलार रोड पर हनीफ खां तेली से शुरू होकर सीधा चलकर मेघवाल समाज के न्याति नोहरे को लेकर आगे कमरदीन की टाल लेकर मोहन मेघवाल को छोड़कर रहमतुल्ला अजीज को लेकर अकबर हाजी को छोड़कर मूली देवी पत्नि नेनूराम मेघवाल को छोड़कर गली में पूर्व की ओर मुड़कर सार्वजनिक शौचालय लेकर गौशाला स्कूल छोड़कर नदी के उपर उत्तर में घूमकर समस्तदीन वकील का मकान छोड़कर सलीम/नूरमोहम्मद को लेकर हाजी ईस्माइल को छोड़कर नूरमोहम्मद मास्टर को लेकर जमालदीन वकील को छोड़कर अहमद तेली को छोड़कर पपू खां की टाल को लेकर उतर की ओर मास्टर इलाहीबक्स को लेकर आगे गली में मोहम्मद अली व षोकत अली को लेकर रोशन खां को छोड़कर सीधा गली में आगे कार्नर पर मजीद खा को छोड़कर षंकरलाल लोहार को लेकर अलीशेर खां को लेकर वन विभाग कचरा नियन्त्रण स्थल छोड़कर समाज कल्याण छात्रावास लेकर आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल छोड़कर मलार रोड पर राज मार्बल लेकर सोहन माली को लेकर हिमालय बिल्डर्स को
37	37	

		छोड़कर बाबा रामदेव मन्दिर लेकर जगदीश टीकूराम मेगवाल को लेकर अब्दे खां तेली को छोड़कर पुनः मलार रोड पर रुसतम तेली की दुकानों को लेकर पुनः हनीफ खां तक।
38	38	मलार रोड में प्रभुकृपा मार्केट से शुरू होकर मनमोहन छंगाणी को लेकर हिमालय बिल्डिंग को लेकर द्वारकेश मार्बल को छोड़कर सीधा केशव गार्डन होटल को लेकर समाज कल्याण छात्रावास को छोड़कर आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय को लेकर षहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को लेकर आगे पश्चिम में मुड़कर भोमिया जी का थान लेकर सीधा चलकर लीलाधर राणोजी माली छोड़कर जेठमल आचार्य को छोड़कर नखताराम को लेकर छोटमल माली लेकर षंकरलाल ब्राह्मण को छोड़कर नरपतसिंह को लेकर राजा टेक्सी वाले को लेकर घान्तीलाल माली को छोड़कर सांखला सदन को लेकर बालकिशन माली को छोड़कर फतेहराज को छोड़कर गोरखाराम लेकर विजय कुमार को छोड़कर दक्षिण में गली में मुड़कर सुरेशमाली को लेकर आसकरण शर्मा को लेकर अमृतलाल माली को छोड़कर बुटाराम/सावरराम माली को छोड़कर सीधा दक्षिण में भोमराज पालीवाल को लेकर मिश्रीलाल माली को छोड़कर प्रेमकुमार/गुगरजी माली को लेकर मांगीलाल जी मास्टर को छोड़कर रमेश/बाबुजी को लेकर प्रकाश जी पुरोहित को लेकर आगे नारायण जी माली को छोड़कर आगे गली में पश्चिम में घुमकर आगे केलाश माली को छोड़कर गली में घुमकर लक्ष्मणसिंह/राजूसिंह राजपुरोहित को लेकर कन्हेयालाल व्यास को छोड़कर सुनिल गज्जा को लेकर बंसतीलाल व्यास को छोड़कर हरीश छंगाणी को लेते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर केलाश जसराज को छोड़ते हुए भंवरलाल बोहरा को लेकर जसराज पुरोहित को लेकर पूर्व की तरफ राधेश्याम माली को लेकर ललीत चाण्डा को लेते हुए मेघराज पुरोहित को छोड़कर पुनः प्रभुकृपा मार्केट तक।
39	39	दाउजी बोहरा से शुरू होकर जसराज साध को छोड़कर उत्तर में सम्पतलाल पुरोहित को लेकर बंसतीलाल व्यास व सुनिल गज्जा को छोड़कर सुरेश थानवी को लेकर उत्तर में चलकर कन्हेयालाल जी व्यास को लेकर लक्ष्मणसिंह/राजूसिंह राजपुरोहित को छोड़कर आगे पूर्व में घुमकर मुख्य सड़क चढ़कर केलाश माली को लेकर नारायणजी माली को लेकर ललीत जोशी वकील को छोड़कर प्रकाश व्यास व जगन्नाथ को छोड़कर रमेश मार्बल वाले का मकान लेकर मदनमोहन बोहरा को छोड़कर आगे पश्चिम में घुमकर पाबुदानजी माली को छोड़कर मांगीलाल जी माली के बाड़े को लेकर आगे शैतान जी को लेकर भोमराज व गोपाल जी को छोड़कर कालूजी माली को लेकर शिवराज/सोहनजी को छोड़कर झुमरलाल माली को लेकर गली में पश्चिम घुमकर सुरेश जी माली को लेकर पांतिलाल/सांगाराम माली को छोड़कर परमसुख माली को लेकर आगे आईदान ठेकदार व कुदंनमल लोढ़ा व समस्त लोढ़ो की ढाणी को लेकर मिश्रीलाल पीटीआई को छोड़कर मदनजी माली को लेकर राजू लोढ़ा को छोड़कर भवरलाल आसूजी को लेकर पारस रामाकिशन को छोड़कर पश्चिम में घुमकर हस्तीमल माली के मकान को छोड़कर नयापुरा स्कूल लेकर दक्षिण में सीधा सीधा चलकर लीलाधर राणूलाल को लेकर पश्चिम में नीलकण्ठ महादेव भेरुघर सराय छोड़कर श्री गोपाल पुरोहित को लेकर गायत्री भवन छोड़कर झुमर सुथार लेकर मांगीलाल चाण्डा को छोड़कर आगे सत्यनारायण बगेची लेकर डीपी को लेकर जानकीलाल माली को छोड़कर व्यामजी बोहरा को छोड़कर राधाकिशन भवन व ओमजी मास्टर को लेकर ओमप्रकाश चाण्डा को छोड़कर हरखा पुरोहित भीकमपुर वालों को लेकर गोगली भवन को छोड़कर पीपलेश्वर हनुमान मंदिर को लेकर सुखदेव जी बोहरा के बाड़े को छोड़कर आगे गुलाब सिंह चौधरी को छोड़कर वल्लभ सदन को लेकर आगे पूर्व में घुमकर रामचन्द्र व्यास को छोड़कर आगे राजू टरु व धनजी टरु को छोड़कर लालजी व्यास को छोड़कर आगे हनुमान जी टरु का बाड़ा लेकर विधवा आश्रम को छोड़कर अणची भवन को छोड़कर जसराज साध को छोड़कर दाउलाल जी बोहरा तक।
40	40	बगतुडी की साल से शुरू होकर सतुगिरी के मकान को लेकर छगनलाल माली को लेकर बाबुजी हलवाई को छोड़कर भेरुघर सराय को लेकर उत्तर में लीलाधर/राणूलाल को छोड़कर आगे नयापुरा मालीयों का बास स्कूल को छोड़कर

	<p>व्यामलाल/बाबुजी माली को लेकर पूर्व में मुड़कर राजू माली लोढ़ा को लेकर चेनसुख माली को लेकर भवरलाल माली को छोड़कर बाया मुड़कर मिश्रीलालजी मास्टर को लेकर आईदान ठेकेदार को छोड़कर लक्ष्मीनारायण रूपजी माली को छोड़कर परमसुख माली को छोड़कर आईलाल/रूपजी माली लेकर षांतिलाल/सांगाराम माली को लेकर दक्षिण की तरफ नाथुलाल माली को लेकर पूर्व की तरफ मुड़कर झुमरलाल माली को छोड़कर दक्षिण की तरफ मुड़कर शिवराज माली को लेकर कालू जी माली को छोड़कर गोपाल माली को लेकर दक्षिण मुड़कर शैतान माली को छोड़कर भोमराज व पाबुजी माली को लेकर मांगीलाल माली को छोड़कर पूर्व की तरफ सीधा चलकर मदनमोहन बोहरा को छोड़कर उत्तर की तरफ मुड़कर आगे आसकरण शर्मा को व सुरेश माली को छोड़कर विजय कुमार पठान को लेकर गोरखाराम को छोड़कर उत्तर की तरफ मुड़कर फतेहराज को लेकर बालकिशन माली को लेकर साखला सदन को छोड़कर सीधा चलकर षांतिलाल माली को लेकर पूर्व की तरफ मुड़कर नरपत सिंह को छोड़कर षंकरलाल ब्राह्मण को लेकर उत्तर की तरफ नखताराम माली को छोड़कर ओमप्रकाश व रामाराम माली को लेकर सुन्दरलाल को छोड़कर सुरजाराम माली व ओमप्रकाश माली को लेकर सीधा पश्चिम में जेठमल/रतनलाल माली को छोड़कर माधोजी गुफा को छोड़कर नकताराम माली लेकर चन्दुजी माली को छोड़कर राधाकिशन अलसीदास को लेकर बौया मुड़कर रणछोडदास को छोड़कर जगदीश माँगीलाल को छोड़कर आगे भोमीयाजी का थान लेकर नारायण / वुधाजी को छोड़कर पुखराज/केसूजी माली को लेकर आईलाल माली को छोड़कर भोमियाजी के मन्दिर को छोड़कर पुनः बगतूडी की साल तक ।</p>
--	--

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**